



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1983/फाल्गुन 4, 1904
No. 32] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1983/PHALGUNA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात-व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 7-आई टी सी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1983

विषय —रशम और मशीन में बने हुए कालीनो सहित हाथ से बने हुए कालीन, कम्बल और दरियों के निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण ।

मिस्त्र सं. 6/201/82-ईपीसी.—सार्वजनिक सूचना में 17-आईटीसी (पीएन)/82 दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1982-83 के परिशिष्ट 10 के अनुबन्ध 1 में आने वाले पंजीकरण प्राधिकारियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2 यह निश्चय किया गया है कि रशमी कालीनो सहित कालीनो, कम्बलो और दरियों के निर्यातकों के लिए कालीन निर्यात स्वर्धन परिषद पंजीकरण प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय, दुकान नं. बी-115 सेक्टर 18, डाकबाग नोएडा, जिला राजियाबाद (यू. पी.) होगा ।

3 जो निर्यातक पहले से ही अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पास पंजीकृत हैं वे 6 मास के भीतर कालीन निर्यात स्वर्धन परिषद के पास अपना पंजीकरण करवाएँ । इस 6 मास की अवधि के दौरान वे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पंजीकरण के आधार पर आर ई पी लाभ प्राप्त कर रहे होंगे ।

1378 GI/82

4 इस सबंध में आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1982-83 में वर्तमान प्रावधानों को तदनुसार संशोधित सम्भवा जाएगा ।

रोमा मजूमदार, नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No 7-ITC(PN)/83

New Delhi, the 23rd February, 1983

Subject—Registering Authority for exporters of Hand made Carpets, Rugs and Druggets including Silk and Machine made Carpets

File No 6/201/82-EPC.—Attention is invited to the list of Registering Authorities in Annexure I to Appendix 10 of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1982-83 published under the Ministry of Commerce Public Notice No 17-ITC(PN)/82 dated the 5th April 1982

2 It has been decided that the Carpet Export Promotion Council with its registered office at Shop No B-115, Sector XVIII Post Office—Nodia Distt Ghazibad (U P) shall be the registering authority for exporters of Carpets Rugs and Druggets including Silk Carpets

3 The exporters who are already registered with All India Handicrafts Board should register themselves with the Carpet Export Promotion Council within a period of six months. During this period of six months, they will continue to get RFP benefits on the basis of their registration with All India Handicrafts Board

4 The existing provision, in this regard in the Hand Book of Import-Export Procedures 1982-83 shall be deemed to have been amended accordingly

ROMA MAZUMDAR Chief Controller of Imports and Exports

(1)

